



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415 |

No. 415 |

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2002/भाद्र 14, 1924  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2002/BHADRA 14, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2002

सं. 90/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 620(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 [1975 का 51] की पहली अनुसूची के शीर्ष 29.05 के अंतर्गत आने वाले ब्राजील, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका (जिन्हें इसके पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए एसाइक्लिक अल्कोहल्स (ओक्सो अल्कोहल्स) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 29 जुलाई, 2002 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

।क। संबद्ध देशों से एसाइक्लिक अल्कोहल्स (ओक्सो अल्कोहल्स) अर्थात् नार्मल बुटानोल, 2- इथाइल हेक्सानोल, आइसो बुटानोल, सेबुटोल, ऑक्टोनोल तथा आइसो ऑक्टोनोल का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है,

।ख। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

।ग। उक्त क्षति संचयी रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है;

।घ। समान वस्तु के आसन्नवर्ती भारी मात्रा में आयात के कारण क्षति का खतरा है;

और अभिहित अधिकारी ने संबद्ध देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए एसाइक्लिक अल्कोहल्स (ओक्सो अल्कोहल्स) अर्थात्—

(I) नार्मल बुटानोल, 2- इथाइल हेक्सानोल, आइसो बुटानोल, सेबुटोल, ऑक्टोनोल, आइसो ऑक्टोनोल;

(II) नोनानोल और आइसो नोनानोल, घरेलू रूप से उत्पादित आक्सो अल्कोहल्स के समान वस्तु होने के कारण;

पर, अंतिम निर्धारण होने तक, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक समझा है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ [पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 12। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 12। में वर्णित देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए, और भारत में आयातित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 29.05 के अंतर्गत आने वाले, उक्त सारणी के स्तंभ 13। की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित प्रकार के, एसाइक्लिक अल्कोहल्स, पर, उक्त सारणी के स्तंभ 14। की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है,

## सारणी

क्रम सं	देश का नाम	एसाइक्लिक अल्कोहल का प्रकार	प्रतिपाटन शुल्क की दर (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन )
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ब्राजील	नार्मल बुटानोल	307.34
2.	ब्राजील	आइसो बुटानोल	139.82
3.	ब्राजील	2- इथाइल हेक्सानोल	164.16
4.	ब्राजील	ऑक्टोनोल	164.16
5.	ब्राजील	आइसो ऑक्टोनोल	164.16
6.	ब्राजील	नोनानोल	164.16
7.	ब्राजील	आइसो नोनानोल	164.16
8.	मलेशिया	नार्मल बुटानोल	194.15
9.	मलेशिया	आइसो बुटानोल	191.55
10.	मलेशिया	2- इथाइल हेक्सानोल	193.88
11.	मलेशिया	ऑक्टोनोल	193.88
12.	मलेशिया	आइसो ऑक्टोनोल	193.88
13.	मलेशिया	नोनानोल	193.88
14.	मलेशिया	आइसो नोनानोल	193.88
15.	रोमानिया	नार्मल बुटानोल	218.41
16.	रोमानिया	आइसो बुटानोल	218.41
17.	रोमानिया	2- इथाइल हेक्सानोल	218.41
18.	रोमानिया	ऑक्टोनोल	218.41
19.	रोमानिया	आइसो ऑक्टोनोल	218.41
20.	रोमानिया	नोनानोल	218.41
21.	रोमानिया	आइसो नोनानोल	218.41
22.	सिंगापुर	नार्मल बुटानोल	217.44
23.	सिंगापुर	2- इथाइल हेक्सानोल	237.02
24.	सिंगापुर	ऑक्टोनोल	237.02
25.	सिंगापुर	आइसो ऑक्टोनोल	237.02
26.	सिंगापुर	नोनानोल	237.02
27.	सिंगापुर	आइसो नोनानोल	237.02
28.	दक्षिण अफ्रीका	आइसो बुटानोल	260.52
29.	दक्षिण अफ्रीका	2- इथाइल हेक्सानोल	260.52
30.	दक्षिण अफ्रीका	सेबुटोल	68.79
31.	दक्षिण अफ्रीका	ऑक्टोनोल	260.52
32.	दक्षिण अफ्रीका	आइसो ऑक्टोनोल	260.52
33.	दक्षिण अफ्रीका	नोनानोल	260.52
34.	दक्षिण अफ्रीका	आइसो नोनानोल	260.52

- 2 इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क 4 मार्च, 2003 तक, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू “ विनिमय दर ” वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड 1क। के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और “ विनिमय दर ” के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन “ प्रवेश पत्र ” के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/145/2002-टी.आर.यू.]

अमन कुमार सिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2002

No. 90/2002-CUSTOMS

G.S.R. 620(E).— WHEREAS in the matter of import of Acyclic alcohols (Oxo alcohols), falling under heading 29.05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Brazil, Malaysia, Romania, Singapore and South Africa (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th July, 2002, has come to the conclusion that—

- (a) Acyclic alcohols (Oxo alcohols), namely Normal Butanol, 2-Ethyl Hexanol, Iso Butanol, Sabutol, Octanol and Iso Octanol have been exported to India from the subject countries below their normal value;
- (b) the domestic industry has suffered material injury;
- (c) the material injury has been caused cumulatively by the dumped imports from the subject countries;
- (d) there is a threat of injury due to imminent imports of like article in large quantities;

and has considered it necessary to impose anti-dumping duty, provisionally, pending final determination, on all imports of Acyclic alcohols (Oxo alcohols), namely—

- (i) Normal Butanol, 2-Ethyl Hexanol, Iso Butanol, Sabutol, Octanol, Iso Octanol;
- (ii) Nonanol and Iso Nonanol, being like article to the domestically produced Oxo Alcohols;

originating in, or exported from, the subject countries.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the Acyclic alcohols, of the type specified in column (3) of the Table annexed hereto, falling under heading 29.05 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the country specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S.No.	Name of the country	Type of Acyclic alcohol	Rate of anti-dumping duty (US\$ per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Brazil	Normal Butanol	307.34
2.	Brazil	Iso Butanol	139.82
3.	Brazil	2-Ethyl Hexanol	164.16
4.	Brazil	Octanol	164.16
5.	Brazil	Iso Octanol	164.16
6.	Brazil	Nonanol	164.16
7.	Brazil	Iso Nonanol	164.16
8.	Malaysia	Normal Butanol	194.15
9.	Malaysia	Iso Butanol	191.55
10.	Malaysia	2-Ethyl Hexanol	193.88
11.	Malaysia	Octanol	193.88
12.	Malaysia	Iso Octanol	193.88
13.	Malaysia	Nonanol	193.88
14.	Malaysia	Iso Nonanol	193.88
15.	Romania	Normal Butanol	218.41
16.	Romania	Iso Butanol	218.41
17.	Romania	2-Ethyl Hexanol	218.41
18.	Romania	Octanol	218.41
19.	Romania	Iso Octanol	218.41
20.	Romania	Nonanol	218.41
21.	Romania	Iso Nonanol	218.41
22.	Singapore	Normal Butanol	217.44
23.	Singapore	2-Ethyl Hexanol	237.02
24.	Singapore	Octanol	237.02
25.	Singapore	Iso Octanol	237.02
26.	Singapore	Nonanol	237.02
27.	Singapore	Iso Nonanol	237.02
28.	South Africa	Iso Butanol	260.52
29.	South Africa	2-Ethyl Hexanol	260.52
30.	South Africa	Sabutol	68.79
31.	South Africa	Octanol	260.52
32.	South Africa	Iso Octanol	260.52
33.	South Africa	Nonanol	260.52
34.	South Africa	Iso Nonanol	260.52

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 4th day of March, 2003, and shall be payable in Indian currency.

*Explanation* - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/145/2002-TRU]

AMAN KUMAR SINGH, Under Secy.